



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन 1943 (श0)
(सं0 पटना 114) पटना, सोमवार, 21 मार्च 2022

okf.kT; &dj foHkx

अधिसूचना

21 मार्च 2022

सं० 15/वैट अंके०/विविध-03/2021-738—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उपधारा (2) के साथ पठित बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए व्यवसाय के विस्तृत वैट अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के क्रम में निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं:-

- “(क) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, ATF तथा प्राकृतिक गैस की खरीद-बिक्री हेतु निर्बंधित वैसे सभी व्यवसायी जिन्होंने वर्ष 2020-21 में अधिनियम के अधीन कर के रूप में रू0 25 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया हो।”
- (ख) उपर्युक्त कंडिका (क) में निदिष्ट व्यवसायियों के अतिरिक्त बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, ATF तथा प्राकृतिक गैस की खरीद-बिक्री हेतु निर्बंधित वैसे सभी व्यवसायी ;
- (i) जिनका वर्ष 2020-21 में सकल आवर्त रू 20 करोड़ से अधिक हो, और
- (ii) जिन्होंने वर्ष 2020-21 में अधिनियम के अधीन किसी भी मद में एक रूपया या उससे अधिक राशि का भुगतान किया हो, और
- (iii) जिनका वर्ष 2019-20 में अंकेक्षण के लिये चयन नहीं किया गया हो।”

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल 17 व्यवसायियों को अंकेक्षण हेतु चयनित किया गया है, जिनकी अंचलवार सूची अनुलग्नक के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 21st March 2022

No- 15/VAT Audit/Vividh-03/2021-738—In exercise of the powers conferred under sub-section(2) of section 26 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (No.- 27 of 2005) read with clause (b) of sub-rule (1) of Rule 22 of the Bihar Value Added Tax rules, 2005 the Commissioner has adopted the following criteria for selecting registered dealers for detailed audit of their business relating to the financial year 2020-21:-

- “(A). All dealers registered under Bihar Value Added Tax Act, 2005 for the sale of Petroleum crude, Petrol, Diesel, ATF and Natural gas who have paid a sum exceeding Twenty five crore rupees during the year 2020-21 by way of tax payable.
- (B). All dealers other than those specified in paragraph (A) above, registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 for the sale of Petroleum crude, Petrol, Diesel, ATF and Natural gas ;
- (i) Whose gross turnover during the year 2020-21 exceeded twenty crore rupees, and
- (ii) Who have paid one or more than Rs. one in any head under this Act during the year 2020-21, and
- (iii) Who have not been selected for Audit for the year 2019-20”

Total 17 dealers for the financial years 2020-21 have been selected for Audit on the basis of above criteria. The circle wise list of the selected dealers is appended here to.

By Order,
Dr. Pratima,
Commissioner State tax-cum-Secretary.

GTO Report 2020-21

Sr. No.	Circle Name	TIN	Firm Name	Commodity (Mojoir Commodity)	GTO	Tax Deposited	Last year VAT audit selection
1	Patna Special Circle	10010116082	M/S INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	Petro Products	296,643,570,992	29,939,836,393	Yes
2	Patna Special Circle	10010121029	M/S BHARAT PETROLEUM CORPORATION LT	Petro Products	66,928,310,413	15,108,049,187	Yes
3	Patna Special Circle	10010120059	M/S HINDUSTAN PETROLEUM CORPON. LTD	Petro Products	44,645,417,696	11,024,633,651	Yes
4	Patna Special Circle	10010381086	RELIANCE INDUSTRIES LTD.(PETROLEUM DIVISION)	Petro Products	6,792,102,456	1,180,474,008	Yes
5	Patna Special Circle	10010411059	NAYARA ENERGY LIMITED	Petro Products	4,737,438,557	1,091,940,173	Yes
6	Patna Special Circle	10011566039	Reliance BP Mobility Limited	Petro Products	9,849,648,101	417,067,220	No
7	Samastipur Circle	10424566005	M/S GAYATRI PETROLEUM	Petro Products	206,271,933	2,731,340	No
8	Bettiah Circle	10260076061	Motani Brothers	Petro Products	222,101,891	69,501	No
9	Madhubani Circle	10410088016	Gauri Shanker Badri Narayan	Petro Products	208,474,582	29,826	No
10	Biharshariff Circle	10190004037	M/S PAWAPURI FEUL STATION	Petro Products	258,537,149	27,623	No

Sr. No.	Circle Name	TIN	Firm Name	Commodity (Mojoor Commodity)	GTO	Tax Deposited	Last year VAT audit selection
11	Patna City West Circle	10080258043	SONALI SERVICE STATION	Petro Products	210,610,068	26,186	No
12	Forbesganj Circle	10444393010	MAA TARA FUEL CENTRE	Petrol	222,918,166	6,950	No
13	Motihari Circle	10270082096	Lal Pd & Sons	Petro Products	203,404,741	4,500	No
14	Muzaffarpur West Circle	10300849041	M/S AMAR DEEP	Petrol	242,048,169	2,870	No
15	Bhagalpur Circle	10521855005	KALI RAM DOKANIA	Petrol	307,930,734	23,250	No
16	Bhagalpur Circle	10520367025	M/S SHREE VISHNU PETROLEUM SERVICE	Petro Products	234,568,062	833	No
17	Siwan Circle	10350305073	KUMAR SERVICE	Petro Products	226,926,283	575	No

Dr. Pratima,
Commissioner State tax-cum-Secretary

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 114-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>